

आप अपना खाता खोजने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनायें।

- 1) बिहार के मानचित्र में से अपने जिले को चुने। जिला चयन के बाद उस जिले के सभी अंचल दिखने लगेंगे।
- 2) उस जिले के अंचलों में से अपने अंचल को चुने। इसके चयन करने से स्क्रीन के बायें तरफ उस अंचल में वर्तमान सभी मौजा दिखने लगेंगे।
- 3) अपने मौजे का चयन 2 विधियों से किया जा सकता है।
  - 3.1) उन मौजों में से अपने मौजे को चुने।
  - 3.2) यदि आप मौजा को तुरंत देखना चाहते हैं तो दिये गये किबोर्ड से प्रथम अक्षर चुनें।
- 4) खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने।
  - 4.1) मौजा के समस्त खातों को देखें।
  - 4.2) खाता संख्या से देखें।
  - 4.3) खाताधारी के नाम से देखें।
- 5) खाता खोजें पर क्लिक करें।
- 6) प्राप्त आँकड़ों में से जिस खाता के बारे में जानना हो उसके सामने 'अधिकार अभिलेख देखें' को क्लिक करें।
- 7) अधिकार अभिलेख का अवलोकन कर प्रिंट लें।

उदाहरण के लिये। यदि हमें उस खाता के संबंध में जानना है जो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल में उपलब्ध है। इसके लिये हमें निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा।

- 1) बिहार के मानचित्र में से बक्सर जिले को माउस से क्लिक करें।

The screenshot displays the official website of the Bihar Department of Revenue and Land Reforms. The header features the department's name in Hindi and English, along with the Government of Bihar logo. Below the header, there is a navigation menu with links for Home, About Us, Acts, Rules, RTI, Feedback, Sitemap, and Contact Us. The main content area is titled 'अपना खाता देखें' (View your account) and includes a sub-header 'भूमि रिकार्ड प्रशुद्धता, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों के लिए उपलब्ध हैं।' (Available for land record updation in Kishanganj, Darbhanga, Bhagalpur, Bhojpur, Buxar, and Rohtas districts). A map of Bihar is shown with various districts highlighted in different colors. The word 'बिहार' (Bihar) is written in large letters across the map. At the bottom, there is a footer with the text '[Visitor # 52 - since June 2012]' and a navigation menu similar to the one at the top. The website is designed and developed by the National Informatics Centre, Bihar.

2) बक्सर जिले के मानचित्र में से ब्रह्मपुर अंचल को माउस से क्लिक करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

भूमि रिकार्ड मधुवनी, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों के लिए उपलब्ध हैं।  
अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

घोड़े चले

Digital Map Source: LRC Division  
Designed By : NIC-BSU

[Visitor # 52 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

3.1) उन मौजों में से अपने मौजे को चुने ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

ज़िला: बक्सर  
अनुमंडल: डुमरावें  
अंचल: ब्रह्मपुर [003]

मौजा का नाम चुने:

मौजा का नाम	मौजा कोड	कुल बेसरा
अकोठी	0921	1079
अतरगनिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुनपुर	0946	438
अंधा	1105	1999
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फ़िल्टर करें :

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

मौजा के समस्त खातों को देखें  
 खाता संख्या से देखें: Disabled  
 खाताधारी के नाम से देखें: Disabled

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दबायें  
उदाहरण के लिए मीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में meera लिखकर [spacebar] दबायें |

खाता खोजें Reset

[Visitor # 4720 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

3.2) यदि आप मौजा को तुरंत देखना चाहते हैं तो दिये गये **किबोर्ड** से प्रथम अक्षर चुनें ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला: बक्सर | अनुमंडल: डुमराँव | अंचल: बहमपुर [003]

मौजा का नाम चुनें:

मौजा का नाम	मौजा कोड	कुल खेसरा
अकोट्टी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फिल्टर करें :

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें:

- मौजा के समस्त खालों को देखें
- खाता संख्या से देखें: Disabled
- खाताधारी के नाम से देखें: Disabled

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दबायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दबायें।

खाता खोजें | Reset

[Visitor # 4720 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

4) खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला: बक्सर | अनुमंडल: डुमराँव | अंचल: बहमपुर [003]

मौजा का नाम चुनें:

मौजा का नाम	मौजा कोड	कुल खेसरा
अकोट्टी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फिल्टर करें :

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें:

- मौजा के समस्त खालों को देखें
- खाता संख्या से देखें: Disabled
- खाताधारी के नाम से देखें: Disabled


हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दबायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दबायें।

खाता खोजें | Reset

[Visitor # 4720 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

## 4.1) मौजा के समस्त खातों को देखें।



**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

[Home](#) | [About Us](#) | [Acts](#) | [Rules](#) | [RTI](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#) | [Contact Us](#)

---

**अपना खाता देखें**

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

**जिला:**  
बक्सर

**अनुमंडल:**  
डुमराँव

**अंचल:**  
ब्रह्मपुर [003]

**मौजा का नाम चुने:**

मौजा का नाम	मौजा कोड	कुल खेसरा
अकोट्टी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अर्जुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमैदपुर	0886	740

**कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फिल्टर करें :**

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	<b>समस्त गाँव देखें</b>			

**सोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने:**


- मौजा के समस्त खातों को देखें
- खाता संख्या से देखें: Disabled
- खाताधारी के नाम से देखें: Disabled

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दवायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दवायें।

[Visitor # 4720 - since June 2012]

[Home](#) | [About Us](#) | [Downloads](#) | [RTI](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#) | [Contact Us](#)  
 Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. [Disclaimer](#)

## 4.2) खाता संख्या से देखें।



**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

[Home](#) | [About Us](#) | [Acts](#) | [Rules](#) | [RTI](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#) | [Contact Us](#)

---

**अपना खाता देखें**

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

**जिला:**  
बक्सर

**अनुमंडल:**  
डुमराँव

**अंचल:**  
ब्रह्मपुर [003]

**मौजा का नाम चुने:**

मौजा का नाम	मौजा कोड	कुल खेसरा
अकोट्टी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अर्जुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमैदपुर	0886	740

**कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फिल्टर करें :**

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	<b>समस्त गाँव देखें</b>			

**सोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने:**

- मौजा के समस्त खातों को देखें
- खाता संख्या से देखें: 11
- खाताधारी के नाम से देखें: Disabled

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दवायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दवायें।

[Visitor # 4725 - since June 2012]

[Home](#) | [About Us](#) | [Downloads](#) | [RTI](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#) | [Contact Us](#)  
 Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. [Disclaimer](#)

### 4.3) खाताधारी के नाम से देखें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

विहार सरकार

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला: बक्सर अनुमंडल: हुमरौं जंचन: ब्रह्मपुर [003]

खाता का नाम चुनें:

खाता का नाम	खाता कोड	कुल खेसरा
अकोठी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से खाता सूची को फिल्टर करें :

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

खातों के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें:

खाता के समस्त खातों को देखें

खाता संख्या से देखें: Disabled

खाताधारी के नाम से देखें: किदार यादव

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दबायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दबायें।

खाता खोजें Reset

[Visitor # 4726 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

### 5) अपना खाता खोजें पर क्लिक करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

विहार सरकार

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला: बक्सर अनुमंडल: हुमरौं जंचन: ब्रह्मपुर [003]

खाता का नाम चुनें:

खाता का नाम	खाता कोड	कुल खेसरा
अकोठी	0921	1079
अतरवलिया	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुनपुर	0946	438
उधरा	1105	1959
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से खाता सूची को फिल्टर करें :

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

खातों के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनें:

खाता के समस्त खातों को देखें

खाता संख्या से देखें: Disabled

खाताधारी के नाम से देखें: किदार यादव

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंग्रेजी में लिखकर [spacebar] दबायें।  
उदाहरण के लिए नीरज लिखने के लिए अंग्रेजी में neeraj लिखकर [spacebar] दबायें।

खाता खोजें Reset

[Visitor # 4726 - since June 2012]

Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us  
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer

6) प्राप्त आँकड़ों में से जिस खाता के बारे में जानना हो उसके सामने 'अधिकार अभिलेख देखें' को क्लिक करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
Department of Revenue and Land Reforms  
Government of Bihar

Home | About Us | Acts | Rules | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us

अपना खाता देखें

अपने खाता की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया

ज़िला: बक्सर अनुमंडल: कुमरौँ अंचल: बल्लपुर [003]

मौजा का नाम चुनें:

मौजा का नाम	मोटा कोड	खेसरा
अकोटी	0921	1079
अतरवालावा	0779	65
अधरपा	0900	2260
अजुलपुर	0946	438
अधरा	1105	1959
उमदपुर	0886	740

कृपया नीचे दिए गए अक्षर से मौजा सूची को फ़िल्टर करें:

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ओ	औ
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म	य	र	ल	व	ह
श	ष	स	क्ष	त्र	ज्ञ	समस्त गाँव देखें			

मौजा के समस्त खातों को देखें  
खाता संख्या से देखें: Disabled  
खाताधारी के नाम से देखें: Disabled

हिंदी में खाताधारी का नाम लिखने के लिए नाम को अंशों में लिखकर [spacebar] दबायें।  
उदाहरण के लिए मोरख लिखने के लिए अंशों में मोरख लिखकर [spacebar] दबायें।

खाता खोजें Reset

कुल खातों की संख्या - 204  
मौज विवरण - जिला:बक्सर - अनुमंडल:कुमरौँ - अंचल:बल्लपुर [003] - मौजा:अकोटी [0921]

क्रम	खाताधारी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	खेसरा संख्या	अधिकार अभिलेख
1	अरविन्द कुमार सिंह	स्व. राम सिंह	88	1084, 1105	देखें
2	अरविन्द कुमार सिंह	स्व. राम सिंह	92	631	देखें
3	एकमी देवी	पति घोषा महतो	89	385	देखें
4	केदार यादव	किमुन यादव	102	699, 702	देखें
5	केदार यादव	किमुन यादव	34	1137	देखें
6	केदार यादव	किमुन यादव	73	935	देखें
7	केदार यादव	किमुन यादव	89	707, 708	देखें
8	केदार यादव	किमुन यादव	98	925	देखें
9	केदार सिंह	रामप्रवेश सिंह	32	674/1167	देखें
10	केदार सिंह	रामप्रवेश सिंह	33	600, 601	देखें
11	केदार सिंह	रामप्रवेश सिंह	34	1074, 13, 278, 33, 373, 44, 488, 50, 674, 870, 902, 927, 942, 959, 960, 964	देखें
12	केदार सिंह	रामप्रवेश सिंह	35	33/1178	देखें

7) अधिकार अभिलेख का अवलोकन कर प्रिंट लें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
बिहार सरकार  
अधिकार अभिलेख

जिला: (30) बक्सर अंचल: (3) बल्लपुर  
मौजा: (921) अकोटी

खाताधारी सं.: 3002030921000058

रैत का नाम: अरविन्द कुमार सिंह  
पिता/पति का नाम: स्व. राम सिंह  
निवास स्थान: ...  
जाति: ...

\*\* स्तंभ 11: लगान/खेसरा नकदी खेती के निरूपित शर्त, कच्चा लिखो (1) उहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो, लगान अलावे शेष (2) तरीका उहराने लगान या क्षायत अगर होले होले बढता हो (3) खास शर्तें शेष अगर कोई हो

खाता नंबर	रैत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौड़ाई	फिफ्ता जमीन	रकबा			दखल दखल का स्वरूप	हाकिम के लक्षिकाल मुनासिब लगान एवम सेस	**	नयेपत गौर दखलदाप रैत के कच्चे की बुदत	परिसरनों को दर्जे करने का आदेश का सागथ, लागन और लिधि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नयेपत /जमाबंदी नं.
					घे.	हे.	है.						
88	2: रामयकबाल वारी अंश- पिता/पति का नाम - भुखा वारी जाति - पता -,,,	1084	पु.- प.- उ.- असौम शंकर द.- रुपनारायण		0	26	0		6.9	0			बदल लें
	3: हीरानन्दन वारी अंश- पिता/पति का नाम - भुखा वारी जाति - पता -,,,	1105	पु.- प.- उ.- रामेश्वर द.- निज		0	54	0		0	0			बदल लें

चाहूँ खतिवान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती हैं, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा निवमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

घन,आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित